

WELLAND GOULDSMITH SCHOOL
CLASS- 8
2nd LANGUAGE HINDI
CHAPTER- गांव और शहर

सार:-

गांव और शहर पाठ में लेखक ने हमें गांव तथा शहर के आपसी संबंधों के बारे में बताया है। इन दोनों की प्रगति पर ही राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है।

- * अभिषेक अपने दादा से बहुत प्यार करता था तथा हर छुट्टियों में वह अपने दादा से मिलने गांव जाया करता था।
- * हर साल की तरह इस साल भी वह गांव आया। दादा का नौकर गोपी उसे लेने बस स्टैंड पर गया।
- * इस बार उसे गांव में बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। गोपी ने उसे बताया कि अब गांव में सरकार ने पानी तथा बिजली की उचित व्यवस्था कर दी है। खेती भी ट्रैक्टर से होती है।
- * समय-समय पर सरकारी कृषि विशेषज्ञ यहां आकर हमारे किसान भाइयों को खेती के वैज्ञानिक ढंग से परिचित करवाते हैं।
- * अभिषेक ने भी महसूस किया कि गांव की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है।
- * गोपी का मित्र रामधन जिसे शहर से बहुत लगाव है, हमेशा शहर के ही सपने देखता रहता है। वहां अभिषेक को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। उसे लगता था कि शहर का जीवन अति सुखमय तथा सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। शानदार बढ़िया इमारतें, चौड़ी सड़कें, सिनेमाघर, स्कूल, अस्पताल तथा आमोद प्रमोद के सभी साधन मौजूद होते हैं।
- * गोपी उसका विरोध करते हुए कहता है कि वहां के बाजार बहुत महंगे होते हैं। प्रत्येक वस्तु में मिलावट होती है। मकान आपस में सटे होने के कारण कई कई दिनों तक सूर्य की रोशनी के दर्शन ही नहीं होते।
- * गांव की खुली धूप और ठंडी हवा तथा खेतों की हरियाली तो सभी का मन मोह लेती है।
- * दोनों की बातें सुनकर अभिषेक उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों की बातें काफी हद तक सही हैं।
- * शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर कुछ लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं जिससे वहां की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है जिसका यह दुष्परिणाम है कि वहां महंगाई, आवासीय समस्या, बेरोजगारी, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
- * परिणाम स्वरूप मनुष्य तनाव तथा अनगिनत बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं।
- * अभिषेक की बातों को सुनकर रामधन ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या तो गांवों को भी प्रभावित कर रही है। चरागाहों की कमी हो रही है तथा पशु भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।
- * परिवार बड़ा होने के कारण कुछ लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं।
- * उनके घर पहुंचने पर दादाजी अभिषेक से मिलकर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि रामधन गांव की बुराई और शहर का गुणगान करता रहता है तो वे दोनों को बहुत समझाते हैं।
- * गांव और शहर दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। गांव यदि भारत की आत्मा है तो शहर भारत का शरीर। गांव ही शहर को आवश्यक वस्तुएं देते हैं।
- * आजादी के बाद गांवों में भी ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र तथा पक्की सड़कें आदि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- * गांवों ने हमारे देश को एक से बढ़कर एक कवि, कलाकार, लेखक, देशभक्त, समाज सुधारक और राजनेता साथ ही साथ लोक गायक तथा लोक नर्तक भी दिए हैं।
- * पुलिस, सेना आदि में भी अधिकतर ग्रामीण लोग ही हैं जिन्होंने देश की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा की बागडोर संभाल रखी है।
- * अतः आज के समय में गांवों और शहरों के बीच में अंतर काफी कम रह गया है। दादा जी ने भी अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि परिवार चाहे शहर में रहे या गांव में, यदि वे आकार में छोटे हो तो भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि सभी सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो सकती हैं।
- * सारी बातें सुनने के बाद रामधन को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर सभी मिलकर मुस्कुराने लगे।

CLASS-8
SUBJECT- 2ND LANGUAGE HINDI
CHAPTER- गांव और शहर
WORKSHEET

- 1) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें :-
 - a) आंतरिक
 - b) पलायन
 - c) आवासीय
 - d) उन्नति
 - e) जिज्ञासा

 - 2) निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं :-
 - a) व्यग्र
 - b) उन्नतशील
 - c) व्यवस्था
 - d) विवश
 - e) चकाचौंध

 - 3) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें :-
 - a) अभिषेक और गोपी के बीच क्या रिश्ता था ?
 - b) किसानों को खेती के वैज्ञानिक ढंग से कौन परिचित करवाता है ?
 - c) अभिषेक किस बात से खुश हुआ ?
 - d) गोपी का घनिष्ठ मित्र कौन था ? दोनों की पसंद में क्या अंतर था ?
 - e) बढ़ती जनसंख्या के क्या क्या दुष्परिणाम हैं ? किन्हीं दो परिणामों के बारे में लिखें ?
 - f) भारत की आत्मा और शरीर कौन हैं ?
 - g) गांवों ने हमारे देश को क्या-क्या दिया है ?
 - h) देश की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा कौन करते हैं ?
 - i) देश की प्रगति किस पर निर्भर करती है ?
 - j) विपरीत शब्द लिखें :- कृतज्ञ, पिछड़ा ।

 - 4) गांव तथा शहर एक दूसरे के पूरक कैसे हैं ? विस्तार से लिखें ।
-